

झारखण्ड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, राँची (झारखण्ड)

JHARKHAND COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING, RANCHI (JHARKHAND)

प्रथम सावधिक परीक्षा (2021- 2022)

FIRST TERMINAL EXAMINATION (2021-2022)

प्रतिदर्श प्रश्न पत्र

सेट-01

Model Question Paper

SET-01

| | | | |
|----------|-------------------|---------------------|-------------|
| कक्षा-12 | विषय- लेखाशास्त्र | समय- 1 घंटा 30 मिनट | पूर्णांक-40 |
|----------|-------------------|---------------------|-------------|

सामान्य निर्देश:-

- सभी प्रश्न अनिवार्य हैं ।
It is mandatory to answer all the questions.
- प्रश्नों की कुल संख्या 40 है ।
The total number of questions is 40.
- प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित हैं ।
Each question carries 1 mark.
- प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इनमें से एक सही विकल्प का चयन कीजिए ।
Each question is provided with 4 options. Choose the correct option.
- गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे ।
There will be no negative marking for any wrong answer.

1. साझेदारी समझौता हो सकता है (Partnership agreement can be)

- (a) मौखिक (Oral)
- (b) लिखित (Written)
- (c) मौखिक या लिखित (Oral or Written)
- (d) इनमें से कोई नहीं (None of these)

2. साझेदारी समझौते के अभाव में लाभ हानि का विभाजन किया जाता है (In the absence of partnership deed profits and losses are shared)

- (a) बराबर- बराबर (Equally)
- (b) पूंजी के अनुपात में (In the ratio of capitals)
- (c) समझौते के अनुसार (As per agreement)
- (d) इनमें से सभी (All of these)

3. साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार को अधिकार नहीं है (In the absence of partnership deed, partners are not entitled to receive)

- (a) वेतन (Salaries)
- (b) कमीशन (Commission)
- (c) पूंजी पर ब्याज (Interest on capital)
- (d) उपरोक्त सभी (All of these)

4. पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ-हानि समायोजन खाता है (Revaluation account or Profit and Loss adjustment account is)
- व्यक्तिगत खाता (Personal Account)
 - नाममात्र का खाता (Nominal Account)
 - वास्तविक खाता (Real Account)
 - इनमें से कोई नहीं (None of these)
5. वर्तमान साझेदारों के लाभ-हानि अनुपात में परिवर्तन से होता है (Change in profit sharing ratio of existing partner results in)
- फर्म का पुनर्मूल्यांकन (Revaluation of the firm)
 - फर्म का पुनर्गठन (Reconstitution of the firm)
 - फर्म का समापन (Dissolution of the firm)
 - इनमें से कोई नहीं (None of these)
6. A,B,C और D लाभ हानि को बराबर - बराबर बांटते हुए साझेदार हैं। उन्होंने अपने लाभ- विभाजन अनुपात को 2: 2: 1: 1 में परिवर्तित कर लिया। C कितना त्याग करेगा ? (A, B , C and D are partners sharing their profits and losses equally. They change their profit sharing ratio to 2:2:1:1. How much will C sacrifice)
- 1/6
 - 1/12
 - 1/24
 - इनमें से कोई नहीं (None of these)
7. जब पुस्तकों में ख्याति ना हो और ख्याति खाता खोला जाए तो किस खाते को डेबिट किया जाएगा (When there is no goodwill account in the books and Goodwill is raised then which account will be debited)
- साझेदार की पूंजी (Partner's capital)
 - ख्याति (Goodwill)
 - रोकड़ (Cash)
 - संचय Reserve)
8. सामान्य लाभ पर औसत लाभ का आधिक्य कहलाता है (Excess of Average Profit over the Normal Profit is called)
- अधिलाभ (Super profit)
 - निश्चित लाभ (Fixed profit)
 - असामान्य लाभ (Abnormal profit)
 - सामान्य लाभ (Normal profits)

9. एक फर्म का औसत लाभ ₹60,000 है। विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय की दर 12.5% प्रतिवर्ष है। फर्म में कुल विनियोजित पूंजी ₹4,00,000 थी। अधिलाभ के 2 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति होगी (A firm has an average profit of ₹60,000. Rate of return on Capital employed is 12.5%. Total capital employed in the firm was ₹4,00,000. Goodwill on the basis of 2 year's purchase of super profit is)
- (a) ₹ 20,000
 (b) ₹ 15,000
 (c) ₹ 10,000
 (d) इनमें से कोई नहीं (None of these)
10. साझेदार के प्रवेश पर पुराने तुलन पत्र में दर्शाए गए संचय हस्तांतरित करेंगे (At the time of admission of new partner General Reserve appearing in the old balance sheet is transferred to)
- (a) सभी साझेदारों के पूंजी खाते में (All partners' Capital A/C)
 (b) नए साझेदारों पूंजी खाते में (New partners' Capital A/C)
 (c) पुरानी साझेदारों के पूंजी खाते में (Old partners' Capital A/C)
 (d) इनमें से कोई नहीं (None of these)
11. त्याग अनुपात निकाला जाता है (Sacrifice ratio is ascertained at the time of)
- (a) साझेदार की मृत्यु पर (Death of a partner)
 (b) एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर (Retirement of a partner)
 (c) एक साझेदार के प्रवेश पर (Admission of a partner)
 (d) इनमें से कोई नहीं (None of these)
12. A और B साझेदार हैं, जो 5:3 में लाभ-हानि बांटते हैं। वे C को $\frac{3}{10}$ भाग के लिए फर्म में शामिल करते हैं। यदि C $\frac{1}{5}$ भाग A से तथा $\frac{1}{10}$ भाग B से लेता है, तो नया लाभ विभाजन अनुपात होगा (A and B are partners sharing profits in the ratio 5:3. They admitted C, giving him $\frac{3}{10}$ Share of profit. If C acquires $\frac{1}{5}$ share from A and $\frac{1}{10}$ share from B, new profit sharing will be)
- (a) 5:6:3
 (b) 2:4:6
 (c) 18:24:38
 (d) 17:11:12
13. पुनर्मूल्यांकन पर लाभ या हानि को वहन करते हैं (Profit or loss on revaluation is Borne by)
- (a) पुराने साझेदार (Old partners)
 (b) नए साझेदार (New partners)
 (c) सभी साझेदार (All partner)

(d) केवल दो साझेदार (Only two partners)

14. साझेदार के पूंजी खाते के प्रारंभिक शेष पर क्या निकाला जाता है (The opening balance of Partners Capital A/C is used to calculated)

(a) पूंजी पर ब्याज (Interest on capital)

(b) आहरण पर ब्याज (Interest on drawings)

(c) आहरण (Drawings)

(d) हानि में हिस्सा (Share in loss)

15. नए साझेदार द्वारा ख्याति के लिए लाई गई नकद राशि वर्तमान साझेदारों द्वारा किस अनुपात में बाँटी जाती है (Share of Goodwill brought by new partner in cash is shared by old partners in)

(a) लाभ विभाजन अनुपात (Profit sharing ratio)

(b) पूंजी अनुपात (Capital ratio)

(c) त्याग अनुपात (Sacrificing ratio)

(d) इनमें से कोई नहीं (None of these)

16. X, Y और Z एक फर्म में बराबर के साझेदार हैं। जेड फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। X और Y के बीच लाभ-विभाजन अनुपात 1:2 है। लाभ प्राप्ति अनुपात होगा (X, Y and Z are equal partners in a firm. Z retires from the firm them. New profit-sharing ratio between X and Y is 1:2. Gaining ratio will be)

(a) 3:2

(b) 2:1

(c) 4:1

(d) केवल Y $\frac{1}{3}$ प्राप्त करता है (Only Y gains by $\frac{1}{3}$)

17. एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करने के समय अलिखित संपत्तियों का व्यवहार किस प्रकार किया जाता है (How unrecorded assets are treated at the time of retirement of a partner)

(a) पुनर्मूल्यांकन खाता में क्रेडिट (Credited to revaluation account)

(b) सिर्फ अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के पूंजी खाता को क्रेडिट (Credited to Capital A/C of retiring partner)

(c) पुनर्मूल्यांकन खाता को डेबिट (Debited to revaluation account)

(d) साझेदारों के पूंजी खाते को जमा (Credited to partner's Capital A/C)

18. ए, बी और सी साझेदार हैं, जो 2:2:1 के अनुपात में लाभों को बाँटते हैं। बी के अवकाश ग्रहण करने पर ख्याति का मूल्यांकन ₹30,000 किया गया। बी की क्षतिपूर्ति के लिए ए एवं सी का अंशदान ज्ञात

करें (A, B and C are partners sharing profit in the ratio of 2:2:1. On the retirement of B, Goodwill was valued at ₹30,000. Find the contribution of A and C to compensate B.)

- (a) ₹20,000 और ₹10,000
- (b) ₹8,000 और ₹4,000
- (c) कोई अंशदान नहीं (No contribution)
- (d) ₹15,000 और ₹15,000

19. ए,बी और सी एक फर्म में साझेदार हैं। यदि डी नए साझेदार के रूप में प्रवेश करता है तो (A, B and C are partners in a firm. If D is admitted as a new partner, then)

- (a) पुरानी फर्म का विघटन होगा (Old firm is dissolved)
- (b) पुरानी फर्म तथा पुरानी साझेदारी का विघटन होगा (Old firm and old partnership is dissolved)
- (c) पुरानी साझेदारी पुनर्गठित होगी (Old partnership is reconstituted)
- (d) इनमें से कोई नहीं (None of these)

20. नए साझेदार द्वारा नकद लाई गई ख्याति कहलाती है (Goodwill brought in cash by new partner is called)

- (a) संपत्ति (Assets)
- (b) लाभ (Profit)
- (c) प्रीमियम (Premium)
- (d) इनमें से कोई नहीं (None of these)

21. स्थायी संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि कहलाती है (Increase in the value of fixed assets is termed as)

- (a) लाभ (Profit)
- (b) मूल्य वृद्धि (Appreciation)
- (c) दोनों (a & b both)
- (d) उपरोक्त सभी (All of these)

22. A और B 5:3 में लाभ-हानि का विभाजन करते हुए साझेदार हैं। C को नए साझेदार के रूप में शामिल किया जाता है और नया लाभ-विभाजन अनुपात 9:5:2 होता है। त्याग अनुपात होगा (A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 5:3. C is admitted as a new partner and the new profit-sharing ratio is 9:5:2. Find out the sacrificing ratio)

- (a) 1:2
- (b) 1:1
- (c) 1:3
- (d) 2:1

23. पी, क्यू, आर और एस साझेदार हैं, जो 6:5:3:2 के अनुपात में लाभों का विभाजन करते हैं। एस फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। एस के अवकाश ग्रहण करने के बाद नया लाभ - विभाजन अनुपात होगा (P, Q, R and S are partners sharing profit in the ratio 6:5:3:2. S retires from the firm. Calculate new profit-sharing ratio)
- (a) 6:5:3
 (b) 6:5:2
 (c) 6:5:4
 (d) 1:1:1
24. एक्स, वाई और जेड किसी फर्म में 4:3:2 के अनुपात में साझेदार हैं। वाई अवकाश ग्रहण करता है। एक्स और वाई भविष्य में 5:4 के अनुपात में लाभ - हानि को बांटने का निर्णय करते हैं। लाभ प्राप्ति अनुपात होगा (X, Y and Z are partners sharing profit in the ratio of 4:3:2. Y retires. X and Z decided to share profits in future in the ratio of 5:4. Calculate gaining ratio)
- (a) 1:1
 (b) 2:1
 (c) 1:2
 (d) 3:2
25. साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर ख्याति की पूरी राशि किसके पूंजी खाते में क्रेडिट की जाएगी (On the retirement of a partner full amount of goodwill is credited to capital account of)
- (a) अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के (Retiring partner)
 (b) शेष साझेदारों के (Remaining partners)
 (c) सभी साझेदारों के (All partners)
 (d) इनमें से कोई नहीं (None of these)
26. मीनाक्षी और गौरवी एक फर्म में साझेदार हैं। मीनाक्षी को कमीशन से पूर्व शुद्ध लाभ पर 10% की दर से कमीशन प्राप्त होना है, जबकि गौरवी को कमीशन के पश्चात शुद्ध लाभ पर 5% की दर से कमीशन प्राप्त होना है। कमीशन से पूर्व का शुद्ध लाभ ₹1,10,000 है। मीनाक्षी का कमीशन होगा (Minakshi and Gauravi are partners in a firm. Minakshi is to get a commission of 10% on net profit before charging Commission while. Gauravi is to get a commission of 5% of net profit after charging all Commission. Net profit before charging any commission was ₹1,10,000. Calculate commission of Minakshi)
- (a) ₹ 11,000
 (b) ₹ 12,000
 (c) ₹ 1,100
 (d) ₹ 14,000
27. साझेदारी समझौते में परिवर्तन से (By change in the partnership agreement)
- (a) साझेदारों के मध्य संबंध बदल जाते हैं (Changes the relationship among the partners)

- (b) साझेदारी व्यवसाय का अंत हो जाता है (Result in end of partnership business)
- (c) साझेदारी फर्म का विघटन हो जाता है (Dissolves the partnership firm)
- (d) इनमें से कोई नहीं (None of these)

28. लाभ प्राप्ति अनुपात (Gaining ratio)

- (a) नया अनुपात - पुराना अनुपात (New ratio - Old ratio)
- (b) पुराना अनुपात - त्याग अनुपात (Old ratio - Sacrificing ratio)
- (c) नया अनुपात - त्याग अनुपात (New ratio - Sacrificing ratio)
- (d) पुराना अनुपात - नया अनुपात (Old ratio- New ratio)

29. साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि का परिणाम (Increase in the value of Assets on reconstitution of the partnership firm results into)

- (a) वर्तमान साझेदारों को लाभ (Gain to the existing partners)
- (b) वर्तमान साझेदारों को हानि (Loss to the existing partners)
- (c) वर्तमान साझेदारों को न लाभ न हानि (Neither gain nor loss to the existing partners)
- (d) इनमें से कोई नहीं (None of these)

30. लाभांश सामान्यता.....पर दिया जाता है (Dividends are usually paid on)

- (a) अधिकृत पूंजी (Authorised capital)
- (b) निर्गमित पूंजी (Issued capital)
- (c) मांगी गई पूंजी (Called-up capital)
- (d) प्रदत्त पूंजी (Paid-up capital)

31. अधिकार अंश निर्गमित किए जाते हैं (Right shares are issued to)

- (a) प्रवर्तकों को सेवाओं के लिए (Promoters for the services)
- (b) प्रवर्तनीय ऋणपत्रों के धारकों को (Holders of convertible debentures)
- (c) विद्यमान अंशधारियों को (Existing shareholders)
- (d) उपरोक्त सभी (All of the above)

32. अंश आबंटन खाता है (Share allotment account is)

- (a) व्यक्तिगत खाता (Personal Account)
- (b) वास्तविक खाता (Real Account)
- (c) नाम मात्र का खाता (Nominal account)
- (d) इनमें से कोई नहीं (None of these)

33. समता अंशधारी कंपनी के होते हैं (Equity shareholders are)
- (a) कंपनी के लेनदार (Creditors of the company)
 - (b) स्वामी (Owners)
 - (c) कंपनी के ग्राहक (Customers of company)
 - (d) इनमें से कोई नहीं (None of these)
34. अंशों के अधिमूल्य को आर्थिक चिट्ठे के किस पक्ष में दिखाया जाता है (Premium on issue of shares is shown on..... side of the balance sheet)
- (a) संपत्ति (Assets)
 - (b) दायित्व (Liability)
 - (c) दोनों (Both)
 - (d) इनमें से कोई नहीं (None of these)
35. अधिकार अंश वे हैं जिन्हें (Right shares are the shares ,which)
- (a) कंपनी के निर्देशकों को निर्गमित किया जाता है (Are issued to the directors of the company)
 - (b) कंपनी के वर्तमान अंश धारकों को निर्गमित किया जाता है (Are issued to existing shareholders of the company)
 - (c) कंपनी के प्रवर्तकों को निर्गमित किया जाता है (Are issued to promoters in consideration of their services)
 - (d) संपत्तियां खरीदने के लिए विक्रेताओं को निर्गमित किया जाता है (Are issued to the vendors for purchasing assets)
36. प्रार्थित पूंजी और अयाचित पूंजी के अंतर को कहा जाता है (The difference between subscribed capital and called- up capital is called)
- (a) बकाया याचना (Calls in arrears)
 - (b) अग्रिम याचना (Calls in advance)
 - (c) अयाचित पूंजी (Un-called capital)
 - (d) इनमें से कोई नहीं (None of these)
37. कंपनी अधिनियम के अनुसार केवल अधिमान अंश जो..... में शोध्य हों, जारी किए जा सकते हैं (As per the Companies Act, only preference shares which are redeemable within..... can be issued)
- (a) 24 वर्ष (24 Years)
 - (b) 22 वर्ष (22 Years)
 - (c) 30 वर्ष (30 Years)
 - (d) 20 वर्ष (20 Years)

38. टेबल F के अनुसार अग्रिम याचना पर ब्याज की अधिकतम दर है (According to table F interest on calls in advance should not exceed at)
- (a) 8% प्रतिवर्ष (8% p.a.)
 - (b) 12% प्रतिवर्ष (12% p.a.)
 - (c) 5% प्रतिवर्ष (5% p.a.)
 - (d) इनमें से कोई नहीं (None of these)
39. प्रतिभूति प्रीमियम खाते को आर्थिक चिट्ठे में किसके अंतर्गत दिखाया जाता है (Securities premium is shown under which head in the balance sheet)
- (a) संचय तथा आधिक्य (Reserve and surplus)
 - (b) विविध व्यय (Miscellaneous expenditure)
 - (c) चालू दायित्व (Current liabilities)
 - (d) अंश पूंजी (Share capital)
40. संचय पूंजी का अर्थ है (Reserve Capital means)
- (a) अभिप्रार्थित और अयाचित पूंजी का एक भाग (A part of subscribed and un-called capital)
 - (b) संचित लाभ (Reserve profit)
 - (c) पूंजी संचय का हिस्सा (A part of Capital Reserve)
 - (d) पूंजी शोधन संचय का एक हिस्सा (A part of Capital Redemption Reserve)

झारखण्ड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, राँची (झारखण्ड)

JHARKHAND COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING, RANCHI (JHARKHAND)

प्रथम सावधिक परीक्षा (2021- 2022)

FIRST TERMINAL EXAMINATION (2021-2022)

प्रतिदर्श प्रश्न पत्र

सेट-02

Model Question Paper

SET-02

| | | | |
|----------|-------------------|---------------------|-------------|
| कक्षा-12 | विषय- लेखाशास्त्र | समय- 1 घंटा 30 मिनट | पूर्णांक-40 |
|----------|-------------------|---------------------|-------------|

सामान्य निर्देश:-

- सभी प्रश्न अनिवार्य हैं ।
It is mandatory to answer all the questions.
- प्रश्नों की कुल संख्या 40 है ।
The total number of questions is 40.
- प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित हैं ।
Each question carries 1 mark.
- प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इनमें से एक सही विकल्प का चयन कीजिए ।
Each question is provided with 4 options. Choose the correct option.
- गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे ।
There will be no negative marking for any wrong answer.

1. किसी समझौते के अभाव में साझेदारी फर्म के लाभ एवं हानि का विभाजन किया जाता है (In the absence of any partnership agreement the profits or losses of the firm are divided in)
 - (a) बराबर- बराबर (Equally)
 - (b) पूंजी के अनुपात में (In capital ratio)
 - (c) विभिन्न अनुपातों में (In different proportions)
 - (d) इनमें से कोई नहीं (None of these)
2. साझेदारी समझौते के अभाव में पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा (In the absence of partnership deed interest on capital will be given to partners at)
 - (a) 8% प्रतिवर्ष (8% per annum)
 - (b) 6% प्रतिवर्ष (6% per annum)
 - (c) 2% प्रतिवर्ष (2% per annum)
 - (d) इनमें से कोई नहीं (None of these)
3. फर्म के लिए आहरण पर ब्याज है (For the firm interest on partners drawings is)
 - (a) व्यय (Expenses)
 - (b) आय (Income)
 - (c) हानि (Loss)
 - (d) प्राप्ति (Gain)

4. जब वर्ष भर निश्चित राशियों का आहरण प्रत्येक महीने की अंतिम तिथि को किया गया हो तो आहरण की कुल राशि पर ब्याज लगाया जाता है (When drawings are made at the end of every month of certain amount then interest will be calculated on total drawings)
- (a) 6.5 महीने के लिए (For 6.5 months)
 - (b) 6 महीने के लिए (For 6 months)
 - (c) 5.5 महीने के लिए (For 5.5 months)
 - (d) 12 महीने के लिए (for 12 months)
5. निम्न में से कौन-सा लाभ का नियोजन है (Which of the following is an appropriation of profit)
- (a) ऋण पर ब्याज (Interest on loan)
 - (b) पूंजी पर ब्याज (Interest on capital)
 - (c) वेतन (Salary)
 - (d) किराया (Rent)
6. निम्न घटक ख्याति को प्रभावित करते हैं सिवाय (Following are the factors affecting Goodwill except)
- (a) व्यवसाय की प्रकृति (Nature of business)
 - (b) प्रबंध की कार्य क्षमता (Efficiency of Management)
 - (c) तकनीकी ज्ञान (Technical knowledge)
 - (d) ग्राहकों की स्थिति (Location of the customers)
7. व्यवसाय की प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को कहते हैं (The monetary value of reputation of the business is)
- (a) ख्याति (Goodwill)
 - (b) अधिलाभ (Super Profit)
 - (c) अधिकोष (Surplus)
 - (d) असामान्य लाभ (Abnormal profit)
8. ख्याति है (Goodwill is)
- (a) मूर्त संपत्ति (Tangible assets)
 - (b) अमूर्त संपत्ति (Intangible asset)
 - (c) चालू संपत्ति (Current asset)
 - (d) इनमें से कोई नहीं (None of these)
9. पिछले 3 वर्षों के लाभ ₹6,000 ; ₹13,000 तथा ₹8,000 थी। ख्याति का मूल्य औसत लाभ के 2 वर्षों के क्रय पर होगा (Profits of last three years were ₹6,000 ; ₹ 13,000 and ₹8,000. The value of goodwill at 2 year's purchase of average profit will be)
- (a) ₹ 81,000
 - (b) ₹ 9,000
 - (c) ₹ 18,000
 - (d) ₹ 27,000

10. पुनर्मूल्यांकन खाता में नाम पक्ष पर जमा पक्ष का आधिक्य है (Excess of the credit side over the debit side of revaluation account)
- लाभ (Profit)
 - हानि (Loss)
 - प्राप्ति (Gain)
 - व्यय (Expense)
11. विगत तीन वर्षों के औसत लाभ ₹42,000 , ₹39,000 तथा 45,000 हैं। औसत लाभों के दो वर्ष के क्रय पर ख्याति का मूल्य होगा (The profits of the last three years are ₹42,000 , ₹39,000 and ₹45,000. Value of Goodwill at two year's purchases of the average profit will be.)
- ₹42,000
 - ₹84,000
 - ₹1,26,000
 - ₹36,000
12. A और B साझेदार हैं। C को 1/5 के लिए शामिल किया जाता है। C अपने भाग के लिए ₹1,20,000 पूँजी के रूप में लाता है। फर्म का शुद्ध मूल्य है। (A and B are partners. C admits for 1/5 share. C brings ₹1,20,000 as his amount of capital. The net worth of the firm is)
- ₹1,00,000
 - ₹4,00,000
 - ₹1,20,000
 - ₹6,00,000
13. नये साझेदारी ठहराव के बाद तैयार किये गए चिठ्ठे में संपत्तियों तथा दायित्वों का लेखा किया जाता है (Balance sheet prepared after new partnership agreement, assets and liabilities are recorded at)
- मूल मूल्य पर (On actual value)
 - पुनर्मूल्यांकन मूल्य पर (On revalued amount)
 - वसूली योग्य मूल्य पर (On realisable value)
 - a या b में से कोई एक (Any one in a and b)
14. नए साझेदार के द्वारा ख्याति की राशि दी जाती है (The amount of Goodwill is paid by new partner)
- पूँजी के भुगतान के लिए (For the payment of Capital)
 - लाभ में हिस्सा पाने के लिए (For sharing the profit)
 - संपत्तियां क्रय करने के लिए (For purchases of assets)
 - इनमें से कोई नहीं (None of these)
15. A, B और C साझेदार हैं। जो लाभ एवं हानियों को 4:3:2 के अनुपात में बाँटते हैं। D को 1/10 भाग के लिए प्रवेश दिया जाता है, नया अनुपात होगा (A, B and C are three partners sharing profits and losses in the ratio of 4:3:2. D is admitted for 1/10 share, the new ratio will be)
- 10:7:7:4
 - 5:3:2:1
 - 4:3:2:1
 - इनमें से कोई नहीं (None of these)

16. X, Y और Z साझेदार हैं तथा लाभ विभाजन अनुपात 3:5:1 है। Y अब अवकाश चाहता है। उसका हिस्सा Z ने ले लिया। X और Z का नया अनुपात होगा (X, Y and Z are partners and profit sharing ratio is 3:5:1. Y now wants to retire and his share is taken by Z. Find the new ratio of X and Z.)
- (a) 1:2
(b) 2:1
(c) 3:5
(d) बराबर (Equally)
17. A, B और C $1/2 : 1/3 : 1/6$ के अनुपात में लाभ बाँटते हैं। C अवकाश ग्रहण करता है। प्राप्ति अनुपात होगा (A, B and C are sharing profits in the ratio of $1/2 : 1/3 : 1/6$, C retired. Gaining ratio will be)
- (a) 2:1
(b) 2:3
(c) 3:2
(d) 1:2
18. एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर, संपत्ति एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन के लाभ पूंजी खाते में जमा किये जाने चाहिए (On the retirement of a partner, profit on revaluation of assets and liabilities should be credited to the Capital Accounts of)
- (a) सभी साझेदारों के पुराने लाभ विभाजन के अनुपात में (All partners in their old profit sharing ratio)
(b) बचे हुए साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में (The remaining partners in their old profit sharing ratio)
(c) बचे हुए साझेदारों के नए लाभ विभाजन अनुपात में (The remaining partners in their new profit sharing ratio)
(d) इनमें से कोई नहीं (None of these)
19. लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है (Gaining ratio is calculated)
- (a) एक नए साझेदार के प्रवेश के समय (At the time of admission of partner)
(b) किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर (At the time of retirement of any partner)
(c) साझेदारी फर्म के विघटित होने पर (On the dissolution of partnership firm)
(d) इनमें से कोई नहीं (None of these)
20. अवकाश ग्रहण करने के समय पुनर्मूल्यांकन के लाभ हानि को बाँटा जाता है (Profit and loss on revaluation at the time of retirement is shared by)
- (a) बचे हुए साझेदारों द्वारा (Remaining Partners)
(b) सभी साझेदारों को (All partners)
(c) नए साझेदारों को (New partners)
(d) इनमें से कोई नहीं (None of These)
21. किसी साझेदार की सेवानिवृत्ति पर, सेवानिवृत्त साझेदार के पूंजी खाते को जमा किया जाएगा (On retirement of the partner, retiring Partner's Capital Account will be credited with)
- (a) उसके भाग की ख्याति के साथ (His/ her share of Goodwill)
(b) फर्म की ख्याति के साथ (Goodwill of the firm)
(c) शेष साझेदारों के भाग की ख्याति के साथ (Share of Goodwill of remaining partners)

- (d) इनमें से कोई नहीं (None of these)
22. एक कम्पनी के अंशधारी होते हैं (Shareholders of a company are)
- (a) स्वामी (Owners)
 - (b) लेनदार (Creditors)
 - (c) देनदार (Debtors)
 - (d) प्रबन्धक (Managers)
23. जब्त किये गए अंशों के पुनः निर्गमन के पश्चात अंश हरण खाते के शेष को हस्तांतरित किया जाता है (Balance of forfeited Shares A/C after Re-issue of forfeited shares is transferred to)
- (a) लाभ- हानि खाता (Profit and Loss A/C)
 - (b) पूंजी संचय खाता (Capital Reserve A/C)
 - (c) सामान्य संचय खाता (General Reserve A/C)
 - (d) इनमें से कोई नहीं (None of These)
24. अंशों का अधिमूल्य पर निर्गमन है (Premium on issue of shares is a)
- (a) पूंजीगत लाभ (Capital Gains)
 - (b) पूंजीगत हानि (Capital Loss)
 - (c) सामान्य हानि (Normal Loss)
 - (d) सामान्य लाभ (Normal Profit)
25. कम्पनी के दायित्वों में जोड़े जाने वाली पूंजी कहलाती है (Capital included in the liabilities of a company is called)
- (a) अधिकृत पूंजी (Authorised Capital)
 - (b) निर्गमित पूंजी (Issued Capital)
 - (c) प्रार्थित पूंजी (Subscribed Capital)
 - (d) चुकता पूंजी (Paid-up Capital)
26. इनमें से कम्पनी की पंजीकृत पूंजी कौन सी है (Which one of the following is the registered capital of the company)
- (a) प्रदत्त पूंजी (Paid-up capital)
 - (b) अयाचित पूंजी (Uncalled capital)
 - (c) अधिकृत पूंजी (Authorised capital)
 - (d) निर्गमित पूंजी (Issued capital)
27. अंशों के निर्गमन के पूर्व कौन- सा विवरण निर्गत (जारी) किया जाता है (Which statement is issued before the issue of shares)
- (a) प्रविवरण पत्र (Prospectus)
 - (b) पार्षद अंतर्नियम (Articles of Association)
 - (c) पार्षद सीमानियम (Memorandum of Association)

(d) उपरोक्त सभी (All of the above)

28. अंश आबंटन खाता है (Share Allotment Account is)

(a) व्यक्तिगत खाता (Personal A/C)

(b) वास्तविक खाता (Real A/C)

(c) नाममात्र का खाता (Nominal A/C)

(d) इनमें से कोई नहीं (None of these)

29. लाभांश सामान्यतः दिया जाता है (Dividends are usually paid on)

(a) अधिकृत पूँजी (Authorised Capital)

(b) निर्गमित पूँजी (Issued Capital)

(c) मांगी गयी पूँजी (Called-up Capital)

(d) प्रदत्त पूँजी (Paid- up Capital)

30. अंशों के हरण के परिणामस्वरूप घट जाती है (Forfeiture of shares results in the reduction of)

(a) चुकता पूँजी (Paid-up Capital)

(b) अधिकृत पूँजी (Authorised Capital)

(c) स्थायी पूँजी(Fixed Capital)

(d) आरक्षित पूँजी (Reserve Capital)

31. कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक कंपनी निर्गमित कर सकती है (Under the provisions of the Companies Act, 2013 a company can issue)

(a) समता अंश(Equity Shares)

(b) पूर्वाधिकार अंश (Preference Shares)

(c) समता अंश एवं पूर्वाधिकार अंश (Equity Shares and Preference Shares)

(d) इनमें से कोई नहीं (None of these)

32. टेबल F के अनुसार अग्रिम याचना पर ब्याज की अधिकतम दर है (As per Table F the maximum rate of interest on calls on advance paid is)

(a) 8% p.a.

(b) 12% p.a.

(c) 5% p.a.

(d) इनमें से कोई नहीं (None of these)

33. अंश आवेदन खाता है (Share Application A/C is)

(a) व्यक्तिगत खाता (Personal A/C)

(b) वास्तविक खाता (Real A/C)

(c) नाममात्र खाता (Nominal A/C)

(d) इनमें से कोई नहीं (None of these)

34. याचित पूँजी और प्रार्थित पूँजी के अंतर को क्या कहा जाता है (The difference between subscribed capital and called-up capital is called)
- (a) बकाया याचना (Calls-in-arear)
 - (b) अग्रिम याचना (Calls-in-advance)
 - (c) अयाचित पूँजी (Uncalled capital)
 - (d) इनमें से कोई नहीं (None of these)
35. समता अंशधारी होते हैं (Equity shareholders are)
- (a) ग्राहक (Customer)
 - (b) लेनदार (Creditors)
 - (c) स्वामी (Owner)
 - (d) देनदार (Debtor)
36. अंशधारी प्राप्त करते हैं (Shareholder gets)
- (a) ब्याज (Interest)
 - (b) लाभांश (Dividend)
 - (c) कमीशन (commission)
 - (d) लाभ (Profit)
37. जब्त किये गए अंशों के पुनः निर्गमन पर दी गयी छूट को डेबिट किया जाता है (Discount allowed on reissue of forfeited share is debited to)
- (a) अंश छूट खाता में (Share Discount A/C)
 - (b) अंश अपहरण खाता में (Share Forfeiture A/C)
 - (c) लाभ- हानि खाता में (Profit & Loss A/c)
 - (d) पूँजी संचय खाता में (Capital Reserve A/C)
38. अंशों का निर्गमन किया जा सकता है (Shares may be issued)
- (a) सम मूल्य पर (At par value)
 - (b) प्रीमियम पर (At Premium)
 - (c) बट्टे पर (At Discount)
 - (d) a और b दोनों (Both A and B)
39. अंशों के अधिमूल्य को आर्थिक चिट्ठे के.....पक्ष में दिखाया जाता है (Premium on issue of share in shows on..... side of the Balance Sheet)
- (a) संपत्ति (Assets)
 - (b) दायित्व (Liability)
 - (c) दोनों (Both)
 - (d) इनमें से कोई नहीं (None of these)

40. दायित्वों की कुल राशि सम्मिलित होती है (Total amount of liabilities side includes)

(a) अधिकृत पूँजी(Authorised Capital)

(b)निर्गमित पूँजी (Issued Capital)

(c)प्रार्थित पूँजी (Subscribed Capital)

(d) चुकता पूँजी (Paid-up Capital)

झारखण्ड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, राँची (झारखण्ड)

JHARKHAND COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING, RANCHI (JHARKHAND)

प्रथम सावधिक परीक्षा (2021- 2022)

FIRST TERMINAL EXAMINATION (2021-2022)

प्रतिदर्श प्रश्न पत्र

सेट-03

Model Question Paper

SET-03

| | | | |
|----------|-------------------|---------------------|-------------|
| कक्षा-12 | विषय- लेखाशास्त्र | समय- 1 घंटा 30 मिनट | पूर्णांक-40 |
|----------|-------------------|---------------------|-------------|

सामान्य निर्देश:-

- सभी प्रश्न अनिवार्य हैं ।
It is mandatory to answer all the questions.
- प्रश्नों की कुल संख्या 40 है ।
The total number of questions is 40.
- प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित हैं ।
Each question carries 1 mark.
- प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इनमें से एक सही विकल्प का चयन कीजिए ।
Each question is provided with 4 options. Choose the correct option.
- गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे ।
There will be no negative marking for any wrong answer.

1. साझेदारी अनुबंध बनाना है (Making of partnership agreement is)
(a) अनिवार्य (Compulsory)
(b) ऐच्छिक (Voluntary)
(c) अंशतः अनिवार्य (Partly compulsory)
(d) उपरोक्त सभी (All of the above)
2. साझेदारी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ (In which year did the Partnership Act passed)
(a) 1932 ई.
(b) 1956 ई.
(c) 1947 ई.
(d) 1952 ई.
3. निम्न में से कौन साझेदारी की विशेषता नहीं है (Which one of the following is not the feature of partnership)
(a) समझौता (Agreement)
(b) लाभ विभाजन (Sharing of profit)
(c) सीमित दायित्व (Limited liability)
(d) दो या दो से अधिक व्यक्ति (Two or more than two persons)
4. स्थिर पूंजी खाता विधि के अंतर्गत साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है (The interest on Capital account of partner under fixed capital method is to be credited to)

- (a) साझेदारों के पूंजी खाता में (Partner's capital account)
- (b) लाभ हानि खाता में (Profit and loss account)
- (c) ब्याज खाता में (Interest account)
- (d) साझेदारों के चालू खाते में (Partner's current account)
5. साझेदारों की पूंजी स्थायी होने पर कौन से खाते खोले जाते हैं (Which account is opened when the capital are fixed)
- (a) केवल पूंजी खाता (Only Capital Account)
- (b) केवल चालू खाता (Only Current Account)
- (c) दायित्व खाता (Liabilities Account)
- (d) पूंजी खाता और चालू खाता (Capital Account and Current Account)
6. साझेदारों की पूंजी पर ब्याज है (Interest on Partner's Capital)
- (a) व्यय (An expenditure)
- (b) विनियोजन (An appropriation)
- (c) लाभ (gain)
- (d) इनमें से कोई नहीं (None of these)
7. निम्न में से कौन-सी संपत्ति एक नए साझेदार के प्रवेश के समय अनिवार्य रूप से पुनर्मूल्यांकन की जाती है (Which of the following asset is compulsorily revalued at the time of admission of a new partner)
- (a) रहतिया (Stock)
- (b) स्थायी संपत्ति (Fixed asset)
- (c) निवेश (Investment)
- (d) ख्याति (Goodwill)
8. निम्नलिखित में से किसे लाभ-हानि विनियोजन खाता में लिखा जाता है (Which one of the following item is to be recorded in Profit and Loss Appropriation account)
- (a) ऋण पर ब्याज (Interest on loan)
- (b) साझेदार का वेतन (Partner's salary)
- (c) साझेदार को दिया गया किराया (Rent given to partner)
- (d) प्रबंधक का कमीशन (Manager's Commission)
9. साझेदारी समझौता कहलाता है (Partnership agreement is called)
- (a) प्रविवरण (Prospectus)
- (b) पार्षद अंतर्नियम (Articles of association)
- (c) साझेदारी के सिद्धांत (Principles of partnership)
- (d) साझेदारी संलेख (Partnership deed)
10. रमेश और सुरेश साझेदार हैं जो लाभों को बराबर-बराबर बांटते हैं। सुरेश नियमित रूप से 6 माह तक प्रत्येक माह के अंत में ₹4,000 का आहरण करता है। 5% प्रतिवर्ष की दर से आहरण पर

ब्याज की गणना करें (Ramesh and Suresh are partners sharing profit and losses equally. Suresh draws regularly ₹4,000 at the end of every month for 6 months. Calculate interest on drawings at the rate 5% per annum)

- (a) ₹650
- (b) ₹450
- (c) ₹600
- (d) ₹550

11. नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि दी जाती है (The amount of goodwill paid by new partner is)

- (a) पूंजी भुगतान के लिए (For payment of Capital)
- (b) लाभ में हिस्सा पाने के लिए (For sharing the profit)
- (c) संपत्तियां क्रय करने के लिए (For purchase of asset)
- (d) इनमें से कोई नहीं (None of these)

12. फर्म की ख्याति का मूल्यांकन ₹1,00,000 पर किया गया है। पुस्तकों में ख्याति ₹50,000 की दिखाई गई है। अरविंद को एक 1/4 हिस्सा के लिए प्रवेश दिया जाता है। अरविंद द्वारा ख्याति के लिए लाई जाने वाली रकम होगी (Goodwill of the firm is valued at ₹ 1,00,000. Goodwill also appears in the book at ₹ 50,000. Arvind is admitted for 1/4 share. The amount of goodwill to be brought in by Arvind will be)

- (a) ₹20,000
- (b) ₹25,000
- (c) ₹30,000
- (d) ₹37,500

13. नए साझेदार के प्रवेश के समय निम्न में से कौन सा मद बढ़ जाता है (What increase at the time of admission of a new partner)

- (a) चालू दायित्व (Current liabilities)
- (b) स्थाई दायित्व (Fixed liabilities)
- (c) उपरोक्त दोनों (Both of the above)
- (d) इनमें से कोई नहीं (None of the above)

14. यदि फर्म की कुल संपत्ति ₹4,05,000 हैं और बाहरी दायित्व ₹55,000 हैं तो फर्म की पूंजी होगी (If the total assets are ₹ 4,05,000 and the total outside liabilities are ₹ 55,000. Then the amount of partnership capital will be)

- (a) ₹3,50,000
- (b) ₹4,00,000
- (c) ₹3,75,000
- (d) इनमें से कोई नहीं (None of these)

15. जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति को नकद में नहीं लाता है तो उस राशि को डेबिट करेंगे
(When a new partner does not bring his share of goodwill in cash. The amount is debited to)
- ख्याति खाता में (Goodwill account)
 - नए साझेदार के पूंजी खाता में (Capital account of new partner)
 - रोकड़ खाता में (Cash account)
 - पुराने साझेदार के पूंजी खाता में (Capital account of old partner)
16. रमेश, सुरेश और दिनेश लाभों का विभाजन 5:3:2 में करते हैं। यदि दिनेश सेवानिवृत्त हो जाता है तो रमेश और सुरेश का नया लाभ विभाजन अनुपात होगा (Ramesh, Suresh and Dinesh are partners sharing profit in the ratio of 5:3:2. If Dinesh retires, the new profit sharing ratio between Ramesh and Suresh is)
- 3:2
 - 5:3
 - 5:2
 - 4:3
17. A, B और C साझेदार हैं और उनकी पूंजी क्रमशः ₹1,00,000, ₹75,000 और ₹50,000 है। C के अवकाश ग्रहण पर उसके अंश को A और B ने 6:4 के अनुपात में खरीद लिया। लाभ प्राप्ति अनुपात होगा (A, B and C are partners. Their capitals are ₹ 1,00,000, ₹ 75,000 and ₹ 50,000 respectively. On his retirement, his share is acquired by A and B in the ratio of 6:4. Gaining ratio will be)
- 3:2
 - 2:2
 - 2:3
 - 1:1
18. पी, क्यू और आर 3:4:3 के अनुपात में लाभों को बाँटते हैं। क्यू अवकाश ग्रहण करता है और पी तथा आर उसके लाभ को बराबर-बराबर बाँटते हैं। पी और आर का नया अनुपात होगा (P, Q and R are partners sharing profit in the ratio of 3:4:3. Q retire and P and R share his profit in equal ratio. Find the new ratio of P and R.)
- 1:2
 - 2:1
 - 3:1
 - 1:1
19. यदि चिट्ठा में ख्याति विद्यमान हो तो इसे क्रेडिट किया जाएगा (If goodwill is appearing in the balance sheet it will be credited to)
- लाभ पाने वाले को (Gaining partner)
 - अवकाश ग्रहण करने वाले को (Retiring partner)
 - सभी साझेदारों को (All partners)
 - शेष साझेदारों को (Remaining partner)
20. अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय राशि चिट्ठा में दिखाई जाती है, उसके (Amount due to retiring partner is shown in the balance sheet as his)
- दायित्व के रूप (Liability)

- (b) संपत्ति के रूप में (Asset)
- (c) पूंजी के रूप में (Capital)
- (d) ऋण के रूप में (Loan)
21. एक कंपनी में सदस्यों का दायित्व होता है (The liability of member of a company is)
- (a) सीमित (Limited)
- (b) असीमित (Unlimited)
- (c) स्थिर (Stable)
- (d) परिवर्तनशील (Fluctuating)
22. निम्न में से किसे प्रदत्त पूंजी ज्ञात करने के लिए घटाया जाना चाहिए (Which of the following should be deducted from the called up capital to find out paid up capital)
- (a) अग्रिम याचना (Calls in advance)
- (b) बकाया याचना (Calls in arrear)
- (c) अंश हरण (Share forfeited)
- (d) अंशों के निर्गमन पर बट्टा (Discount on issue of shares)
23. संयुक्त पूंजी कंपनी है (Joint stock company is)
- (a) वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति (An artificial legal person)
- (b) प्राकृतिक व्यक्ति (Natural person)
- (c) सामान्य व्यक्ति (General person)
- (d) इनमें से कोई नहीं (None of these)
24. एक कंपनी का..... होता है (A company has)
- (a) पृथक वैधानिक इकाई (Separate legal entity)
- (b) स्थायी जीवन (Perpetual existence)
- (c) सीमित दायित्व (Limited liability)
- (d) उपरोक्त सभी (All of the above)
25. सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है (Minimum number of members in a Public Company is)
- (a) 4
- (b) 5
- (c) 7
- (d) 3
26. निजी कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है (Minimum number of members in a Private Comapany)
- (a) 3
- (b) 2
- (c) 4
- (d) 5
27. अदत्त याचनाओं की राशि (Amount of calls in arrear is)

- (a) पूँजी में जोड़ी जाती है (Added to Capital)
- (b) अंश पूँजी में घटाई जाती है (Deducted from share capital)
- (c) संपत्ति पक्ष में दिखाई जाती है (Shown on the assets side)
- (d) समता अंश एवं दायित्व पक्ष में दिखाई जाती है (Shown on the Equity share and liabilities side)
28. प्रति अंश आवेदन की राशि अंश के निर्गमन मूल्य के.....से कम नहीं होनी चाहिए (Application money should not be less than..... of issue price of each share)
- (a) 10%
- (b) 15%
- (c) 25%
- (d) 50%
29. यदि ₹10 वाले समता अंश ₹12 पर निर्गमित किया जाता है तो किसे कहा जाता है (If equity share of ₹ 10 it is issued at ₹ 12 which it is called)
- (a) सममूल्य पर निर्गमन (Issued at par)
- (b) अधिमूल्य पर निर्गमन (Issued at premium)
- (c) कटौती पर निर्गमन (Issued at discount)
- (d) इनमें से कोई नहीं (None of these)
30. स्थिति विवरण में अंश हरण के शेष को..... शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है (Balance of Share Forfeiture account is shown in the balance sheet under the head of)
- (a) अंश पूँजी खाता में (Share capital account)
- (b) संचय एवं आधिक्य (Reserve and surplus)
- (c) चालू दायित्व (Current liabilities)
- (d) गैर चालू दायित्व (Non current liabilities)
31. कंपनी अधिनियम के अनुसार न्यूनतम अनुदान की राशि कुल निर्गमन का.....निर्धारित कर दी गई है (According to Companies Act minimum subscription has been fixed at..... of the issued amount)
- (a) 5%
- (b) 50%
- (c) 90%
- (d) इनमें से कोई नहीं (None of these)
32. अंशों के हरण के परिणाम स्वरूप घट जाती है (Forfeiture of share results in the reduction of)
- (a) चुकता पूँजी (Paid-up capital)
- (b) अधिकृत पूँजी (Authorised capital)
- (c) स्थायी पूँजी (Fixed capital)
- (d) आरक्षित पूँजी (Reserve capital)
33. जब अंशों को जब्त किया जाता है तो अंश पूँजी खाता को डेबिट किया जाता है (When shares are forfeited the share capital amount debited with)
- (a) अंशों के अंकित मूल्य से (Nominal value of share)

- (b) अंशों के बाजार मूल्य से (Market value of share)
- (c) अंशों के याचित मूल्य से (Called-up value share)
- (d) अंशों के प्रदत्त मूल्य से (Paid-up value share)
34. हरण किए गए अंश के पुनः निर्गमन पर दी गई छूट को डेबिट किया जाता है (Discount allowed on reissue of Forfeited share is debited to)
- (a) अंश पूंजी खाते में (Share capital account)
- (b) अंश अपहरण खाते में (Share forfeited account)
- (c) लाभ हानि खाते में (Profit and loss account)
- (d) सामान्य संचय खाते में (General reserve account)
35. एक सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है (Maximum number of member in a public company is)
- (a) 7
- (b) 200
- (c) असीमित (Unlimited)
- (d) इनमें से कोई नहीं (None of these)
36. कंपनी में निश्चित दर से लाभांश किसको दिया जाता है (To whom dividend is given at a fixed rate in a company)
- (a) समता अंशधारियों को (To equity shareholders)
- (b) पूर्वाधिकार अंशधारियों को (Preference shareholders)
- (c) ऋण पत्रधारियों को (To Debenture holders)
- (d) समर्थकों को (To promoters)
37. अधिकतम राशि जिससे अधिक कंपनी को अपने अंशों के निर्गमन द्वारा कोष जुटाने की आज्ञा नहीं है (The maximum capital beyond which a company is not allowed to raise funds by issue of shares is called)
- (a) निर्गमित पूंजी (Issued capital)
- (b) संचय पूंजी (Reserve capital)
- (c) अधिकृत पूंजी (Authorised capital)
- (d) अभियाचित पूंजी (Subscribe capital)
38. एक कंपनी अपने अंशों को प्रीमियम पर भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 के किस धारा के अंतर्गत जारी करती है (A company issues its share at premium under which section of Indian Companies Act, 2013)
- (a) 78
- (b) 79
- (c) 52
- (d) 53

39. जब प्रबंधकों के अंश निर्गमित किए जाते हैं तो किस खाते में डेबिट किया जाएगा (Which account should be debited when shares are issued to promoters)
- (a) अंश पूंजी खाता में (Share capital account)
 - (b) संपत्ति खाता में (Asset account)
 - (c) प्रवर्तक खाता में (Promoters account)
 - (d) ख्याति खाता में (Goodwill account)
40. अंशों का ऐसा निर्गमन जो सार्वजनिक नहीं किया है बल्कि कुछ चुने हुए व्यक्तियों को निर्गमित किए जाते हैं, कहलाता है (An issue of shares which is not a public issue but offered to a selected group of person is, called)
- (a) सार्वजनिक प्रस्ताव (Public offer)
 - (b) अंशों की निजी व्यवस्था (Private placement of shares)
 - (c) प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (Initial public offer)
 - (d) इनमें से कोई नहीं (None of these)